

कक्षा :- 11वीं
विषय :- लेखाशास्त्र (Accountancy)

पूर्णांक :- 80
समय :- 3:00 घंटे

क्र.	इकाई एवं विषय वस्तु	इकाई पर आवंटित अंक	वस्तुनिष्ठ प्रश्न	अंकवार प्रश्नों की संख्या			कुल प्रश्न
				1 अंक	2 अंक	3 अंक	4 अंक
1	लेखांकन - एक परिचय	06	04	01	—	—	01
2	लेखांकन - सैद्धांतिक आधार	06	04	01	—	—	01
3	लेनदेनों का अभिलेखन-I	10	04	01	—	01	02
4	लेनदेनों का अभिलेखन-II	10	03	02	01	—	03
5	बैंक समाधान विवरण	04	02	01	—	—	01
6	तलपट/अशुद्धियों का संशोधन	10	04	01	—	01	02
7	ह्रास, प्रावधान और संचय	08	02	01	—	01	02
8	विनिमय विपत्र	05	—	01	01	—	02
9	वित्तीय विवरण-I	08	05	—	01	—	01
10	वित्तीय विवरण-II	08	02	01	—	01	02
11	अपूर्ण अभिलेखों से खाते	05	02	—	01	—	01
	कुल योग	80	32	20	12	16	18+5=23

प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश -

- प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प 06 अंक, रिक्त स्थान 07 अंक, सही जोड़ी 06 अंक, एक वाक्य में उत्तर 07 अंक, सत्य असत्य 06 अंक, संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 01 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान ईकाई/उप ईकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी -
अतिलघुउत्तरीय प्रश्न 02 अंक लगभग 30 शब्द
लघुउत्तरीय प्रश्न 03 अंक लगभग 75 शब्द
विश्लेषणात्मक 04 अंक लगभग 120 शब्द
- 40 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40 प्रतिशत पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्न, 20 प्रतिशत विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे।
- सत्र 2021-22 हेतु कम किये गये पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न न दिये जायें।
- पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रायोजना कार्य हेतु 20 अंक आवंटित है।

कक्षा:- 11वीं
विषय:- लेखाशास्त्र (वाणिज्य संकाय)
कम किए गए पाठ्यक्रम की विषयवस्तु

क्र.	पुस्तक/विषय वस्तु का नाम	अध्याय	कम किये गये अध्याय/ विषय वस्तु का नाम
1	लेखांकन एक परिचय	अध्याय- 1	कोई परिवर्तन नहीं
2	लेखांकन के सैद्धान्तिक आधार	अध्याय- 2	(2.6) अन्तराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली
3	लेनदेन का अभिलेखन-1	अध्याय -3	(3.2) लेखांकन समीकरण
4	लेनदेन का अभिलेखन-2	अध्याय -4	कोई परिवर्तन नहीं
5	बैंक समाधान विवरण	अध्याय -5	(5.2) बैंक समाधान विवरण का निर्माण
6	तलपट एवं अशुद्धियों का संशोधन	अध्याय -6	कोई परिवर्तन नहीं
7	ह्रास, प्रावधान एवं संचय	अध्याय -7	(7.8) ह्रास के अभिलेखन की पद्धतियां (7.9) परिसम्पत्ति का निपटान (7.10) वर्तमान परिसम्पत्ति में बढ़ोत्तरी एवं विस्तार
8	विनिमय विपत्र	अध्याय -8	(8.9) विपत्र का नवीनीकरण (8.10) विनिमय विपत्र का परिपक्वता तिथि से पूर्व भुगतान
9	वित्तीय विवरण - 1	अध्याय -9	कोई परिवर्तन नहीं
10	वित्तीय विवरण - 2	अध्याय-10	(10.11) प्रबंधक कमीशन
11	अपूर्ण अभिलेखों के खाते	अध्याय-11	(11.3) लाभ एवं हानि का निर्धारण (11.4) व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा तुलन पत्र तैयार करना
12	लेखांकन में कम्प्यूटर का अनुप्रयोग	अध्याय-12	सम्पूर्ण अध्याय
13	कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली	अध्याय-13	सम्पूर्ण अध्याय